



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 570]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 26, 1978/पौष 5, 1900

No. 570]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 26, 1978/PAUSA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)  
(बैंकिंग प्रभाग)  
अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1978

का० मा० 736(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के अनुरोध पर, केन्द्रीय सरकार, 26 दिसम्बर, 1978 से गुजरात राज्य में, जामनगर ग्रामीण बैंक नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है जोकि गुजरात राज्य में जामनगर जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्य करेगा।

[संख्या एक० 1-6/77-प्रार० प्रार० बी० (I)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
BANKING DIVISION

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th December, 1978

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the State Bank of Saurashtra, establishes, with effect from the 26th December, 1978, a Regional Rural Bank in the State of Gujarat under the name of Jamnagar Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the district of Jamnagar in the State of Gujarat.

[No. F. 1-6/77-RRB(T)]

का० मा० 736/1(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा जामनगर ग्रामीण बैंक के प्रायोजक स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के परामर्श से जामनगर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहां पर जामनगर ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एक० 1-6/77-प्रार० प्रार० बी० (II)]

S.O. 736/1(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of Saurashtra, by which Jamnagar Gramin Bank has been sponsored specifies Jamnagar as the place where Jamnagar Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-6/77-RRB(II)]

का० मा० 736/2(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा जामनगर ग्रामीण बैंक को उक्त उपखंड के प्रयोजन के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या एक० 1-6/77-प्रार० प्रार० बी० (III)]

कु० कुसुमलता मित्तल, संयुक्त सचिव

S.O. 736/2(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Jamnagar Gramin

Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-6/77-RRB(II)]

KUM. KUSUM LATA MITAL Jt. Secy.

### भारतीय रिजर्व बैंक

(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग)

#### अधिसूचना

बम्बई, 26 दिसम्बर, 1978

क्रा० जा० 736/3(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निवेश देता है कि उक्त

अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए प्रस्तावित :—

जामनगर ग्रामीण बैंक, जामनगर ।

[सं० डी०बी०ओ०ई०नं० 160/आई०एन०सी०एन०/सी० 102-78]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गवर्नर

### RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

#### NOTIFICATION

Bombay, the 26th December, 1978

S.O. 736/3(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :—

Jamnagar Gramin Bank, Jamnagar.

[DBOD. No. 160/INCL/C. 102-78]

K. S. KRISHNASWAMY, Deputy Governor